



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2012—जनवरी 4, 2013 (पौष 8, 1934)  
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2012—JANUARY 4, 2013 (PAUSA 8, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *	1189
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *	1329
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1917
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	12903
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1061
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	1189	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	1329	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1917	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1965
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	12903
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	1061
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I — खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

संकल्प

विषय : इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(2)/2011डी-I--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 14.03.2011, 07.09.2011 और 25.11.2011 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया जाता है। इसके तहत इस मंत्रालय के पूर्व कथित संकल्प के पैरा-3 के अंतर्गत उनके नामों का उल्लेख किया गया है:--

आन्ध्र प्रदेश

श्री सूर्यदेवड़ा रवि,

203, सौंदर्य अपार्टमेंट, प्रथम तल,  
राजेन्द्र नगर, गुंटूर-5 (आंध्र प्रदेश)

श्री वरसला श्रीनिवास राव,  
क्वार्टर नं. 121-बी, सेक्टर-2,  
उक्कुनाग्राम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

बिहार

श्री तनवीर उज्जमन,  
महा सचिव, नेशनल मोमिन कांग्रेस,  
नूरानी बाग, आलमगंज, बिहार

छत्तीसगढ़

श्रीमती गुरमीत कौर धानयी,  
1/2 स्टील कॉलोनी, नेहरू नगर (पश्चिम)  
दुर्ग, भिलाई (सीजी)

श्री प्रह्लाद वर्मा,  
महादेवघाट रोड, सुंदर नगर,  
रायपुर (छत्तीसगढ़-492013)

मोहम्मद शफीक खान,  
रसूलपुर, पी.ओ. अमलिकापुर-497001

श्री राकेश कुमार पोद्दार,  
सुपुत्र श्री कृष्ण प्रसाद पोद्दार,  
ब्लॉक 5डी, रोड नं. 10, सेक्टर-5,  
भिलाई नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़-490006

दिल्ली

श्री मोहम्मद मोजिबुर रहमान,  
मकान नं. 179, दूसरा तल, लेन नं. 5 जे  
एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

श्री सुनील कुमार मित्तल,  
सुपुत्र श्री रोशन लाल मित्तल,  
जी-46/एस-1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095

झारखंड

श्री मोहम्मद इजाज अली,  
जब्बर कैम्पस, वासेपुर, धनबाद-826001, (झारखंड)

कर्नाटक

श्री वेंकटराम रेड्डी,  
पूर्व उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, केजीएफ,  
जिला-कोलार, कर्नाटक

श्री राघवेन्द्रा,  
नं. 333, तीसरा ब्लॉक, "दि एम्बेस्सी"  
अली अकसर रोड, बंगलौर-1

श्री शमसुद्दीन बाबू,  
पूर्व-अध्यक्ष, टाउन म्यूनिसिपल, बांगरपेट,  
जिला-कोलार, कर्नाटक

मध्य प्रदेश

श्री पुनीत कुमार चौधरी,  
खारी फाटक, गल्ला मांडी रोड,  
विदिशा (मध्य प्रदेश)

महाराष्ट्र

श्री दिलीप गिरजाशंकर यादव,  
216, लाल्टा यादव चाल, संत ज्ञानेश्वर नगर,  
एमजी क्रास रोड नं. 1, कांडीवली (पश्चिम), मुंबई-400067

डॉ. रामदुलार देवनाथ यादव,  
साईधाम कॉ-ऑप हॉउसिंग सोसाइटी,  
हनुमान नगर, कांडीवली (पूर्व), मुंबई-101

श्री सत्येन्द्र राम शंकर श्रीवास्तव,  
ए-301/302, पंचवटी गार्डन्स, अपर गोविंद नगर,  
रहेजा टाउनशिप, मलाड (पूर्व), मुंबई-97

श्री एस. कृष्ण मूर्ति,  
मर्ति एंड एसोशिएट्स, शाप नं. 5,  
डी लिमा अपार्टमेंट्स, बोदी लेन, ओरलम,  
मर्वे रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई-64

श्री घनश्याम रामबाली दुबे,  
विट्ठल चॉल, सुकरवाडी,  
9 महात्मा गांधी क्रास रोड,  
बोरीवली (पूर्व), मुंबई-66

श्री अब्दुल कादर अब्दुल्ला,  
कमरा नं. 212, दूसरा तल, ए विंग,  
नागसन बिल्डिंग, समीप-सेल टैक्स ऑफिस,  
मझगांव, मुंबई-10

श्री कौंडगुले चन्द्रकांत नागनाथ,  
लक्ष्मी अपार्टमेंट, फ्लैट नं. 7, प्रथम तल,  
साउथ सदर बाजार, शोलापुर-413003

श्री सुरेश बाबूराव गईधनकर,  
लक्ष्मी स्कूल अपार्टमेंट, गांधी नगर,  
शोलापुर

श्री प्रिंस सिंह,  
सी-303, शालीभद्रा एवेन्यू, विपरीत-मार्टिन कॉम्पलेक्स,  
बसई नल्लासोपरा न्यू लिंक रोड, नल्लासोपरा (ई),  
ठाणे, महाराष्ट्र

श्री परवेज आलम शाहिद कुरैशी,  
फ्लैट नं. 702, सातवां तल, प्रेम मयूरसन  
सीएचएस लि., बंबेडकर रोड, आफ, टर्नर रोड,  
बांद्रा (डब्ल्यू), मुंबई-400050

श्री सल्लीम अब्दुल रजाक मेमन,  
फ्लावर वैली, 1101/1102, रोज बिल्डिंग,  
समीप-Secred हाटर्स टाउन, वानोवारी,  
पुणे-411040

उड़ीसा

श्री निर्मल कुमार नायक,  
सुंदरगढ़, एट-थानापाडा, पी.ओ./जिला,  
सुंदरगढ़, ओडिसा

तमिलनाडु

श्री एम. राजा,  
123/1, टीएम पलायम, कोयम्बटूर,  
तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह,  
गांव रायपुर कला, पोस्ट घुरूपुर,  
बाजार शांति नगर, पुलिस स्टेशन सुजानगंज,  
तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

श्री नदीम अहमद सिद्दीकी,  
डी-8, खापरा मोहाल, कानपुर कैंट

श्री फिरोज कमाल अब्बासी,  
कैम्पस नायब अब्बासी गर्ल्स डिग्री कालेज,  
केलसा रोड, अमरौहा, जेपी नगर, (उत्तर प्रदेश)

श्री नंद किशोर गुप्ता,  
वार्ड नं. 12, जवाहर नगर, नगर पंचायत, सियोराही,  
विपरीत-पंजाब नेशनल बैंक, (मेन रोड),  
तमकुही रोड, पीओ-सियोराही, तहसील-तमकुही राज,  
जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274406

उत्तराखंड

श्री सुनील गुप्ता,  
3, दून विहार, देहरादून (उत्तराखंड)

2. यह परिषद अध्यक्ष के इस्पात मंत्री के रूप में रहने तक कार्य करेगी।  
एसएससी का प्रारंभिक कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से दो वर्षों तक होगा,  
जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह कार्यकाल विशेष रूप से घटायी अथवा  
बढ़ाया नहीं जाता है। एसएससी जब भी आवश्यकता हो, अपनी बैठकें करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद  
सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों,  
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों  
को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में आम  
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

सय्यदेन अब्बासी

संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

संकल्प

सं. ईआरबी-1/2009/23/21--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड) के दिनांक 26.09.2011 के समसंख्यक संकल्प के तहत गठित  
यात्री सुविधा समिति को तत्काल प्रभाव से भंग करने का विनिश्चय किया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए  
भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर.सी. जाट, सचिव

(रेलवे बोर्ड)

संकल्प

सं. ईआरबी-1/2012/23/2--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड) के दिनांक 12.01.2012 के समसंख्यक संकल्प के तहत गठित  
यात्री सेवा समिति को तत्काल प्रभाव से भंग करने का विनिश्चय किया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए  
भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर.सी. जाट, सचिव

(रेलवे बोर्ड)

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 10 th December 2012

## RESOLUTION

Subject:-Constitution of Steel Consumers' Council-regarding

No. 5(2)/2011-SDI—In continuation of Ministry of Steel Resolution of even number dated 14.03.2011, 07.09.2011 and 25.11.2011 the following persons are hereby nominated as non-official Members to the Steel Consumers' Council of Ministry of Steel to represent the States/UTs under which their names have been mentioned, under Para. 3 of this Ministry's aforesaid Resolution:-

## ANDHRA PRADESH

Shri Suryadevara Ravi,  
203, Saundarya Apartment,  
First Floor, Rajendra Nagar,  
Guntur-6 (A.P.)

Shri Varsala Srinivasa Rao,  
Quarter No. 121-B, Sector 2,  
Ukkunagaram, Visakhapatnam, A.P.

## BIHAR

Shri Tanveer Uzzaman,  
Genl. Secy. National Momin Congress,  
Noorani Bagh, Alamganj,  
Bihar,

## CHHATTISGARH

Smt. Gurmeet Kaur Dhanyee,  
1/2, Steel Colony, Nehru Nagar (West),  
Durg, Bhilai (CG)

Shri Prahlad Verma,  
Mahadeoghat Road, Sundar Nagar,  
Raipur (Chhattisgarh) 492013.

Md. Shafique Khan,  
Rasoolpur P.O., Amlikapur,  
Chhattisgarh-497001

Shri Rakesh Kumar Poddar,  
S/o Shri Krishan Prasad Poddar,  
Block 5D, Road No. 10, Sector-5, Bhilai Nagar,  
Distt. Durg, Chhattisgarh-490006

## DELHI

Shri Mohd. Mojibur Rehman,  
House No. 179, 2nd Floor, Lane No. 5J Ext.,  
Laxmi Nagar, Delhi-110092

Shri Sunil Kumar Mittal,  
S/o Shri Roshan Lal Mittal,  
G-46/S-1, Dilshad Colony,  
Delhi-110095

## JHARKHAND

Shri Md. Ejaz Ali,  
Jabbar Campus, Wasseyapur,  
Dhanbad-826001 (Jharkhand)

## KARNATAKA

Shri Shamsuddin Babu,  
Ex-President, Town Municipal,  
Bangarpet, Distt. Kolar, Karnataka

Shri Raghavendddhiraa,  
No. 333, 3rd Block, "The Embassy",  
Ali Aksar Road, Bangalore-1

Shri Venkatram Reddy,  
Ex-Vice President, Zilla Panchayat,  
KGF, Distt. Kolar, Karnataka

## MADHYA PRADESH

Shri Puneet Kr. Choudhary,  
Khari Phatak, Galla Mandi Road,  
Vidisha (M.P.)

## MAHARASHTRA

Shri Dilip Girjashanker Yadav,  
216, Lalta Yadav Chal, Sant  
Gyaneshwar Nagar, MG Cross Road  
No. 1, Kandivali (West), Mumbai-400067

Dr. Ramdular Deonath Yadav,  
Saidham Co-op Housing Society,  
Hanuman Nagar, Kandivali (East),  
Mumbai-400101

Shri Satyendra Rama Shankar Srivastava,  
A-301/302, Panchvati Gardens,  
Upper Govind Nagar, Raheja Township,  
Malad (East), Mumbai-400097

Shri S. Krishna Moorthy,  
Moorthy & Associates, Shop No.5,  
D'Lima Apartments, Baudi Lane,  
Orlem, Marve Road, Malad (West),  
Mumbai-400064

Shri Ghanshyam Rambali Dube,  
Vithal Chawl, Sukarwadi,  
9th Mahatma Gandhi Cross Road,  
Borivali (East), Mumbai-400066

Shri Abdul Kader Abdulla,  
Room No. 212, 2nd Floor, A Wing Nagson Bld.,  
Near Sales Tax Office, Mazgon,  
Mumbai-400010

Shri Suresh Baburao Gaidhankar,  
Laxmi School Apartment,  
Gandhi Nagar,  
Solapur

Shri Parvez Alam Shahid Qureshi,  
Flat No. 702, 7th Floor,  
Prem Mayurasan C.H.S. Ltd.,  
Bambedkar Road, Off. Turner Road, Bandra (West),  
Mumbai-400050

Shri Prince Singh,  
C-303, Shalibhadra Avenue,  
Opp. Martin Complex,  
Basai Nallasopara New Link Road,  
Nallasopara (E), Thane, Maharashtra

Shri Salleem Abdul Razak Maymon,  
Flower Valley, 1101/1102, Rose Building,  
Near Secred Hearts Town, Wanowari,  
Pune-411040.

Shri Kondgule Chandrkant Nagnath,  
Laxmi Apartment, Flat No.7,  
1st Floor, South Sadar Bazar,  
Solapur-413003.

ODISHA

Shri Nirmal Kumar Naik,  
Sundargarh, At-Thanapada,  
P.O./District Sundargarh,  
Odisha

TAMIL NADU

Shri M. Raja,  
123/1, T.M. Palayam,  
Coimbatore, T.N.

UTTAR PRADESH

Shri Kaushlendra Pratap Singh,  
Village Raipur Kala, Post Ghurupur,  
Bazar Shanti Nagar,  
Police Station Sujanganj,  
Tehsil Machlishahar,  
Distt. Jaunpur, U.P.

Shri Nadeem Ahmad Siddiqui,  
D-8, Khapra Mohaal,  
Kanpur Cantt.

Shri Firoz Kamal Abbasi,  
Campus Nayab Abbasi Girls Degree College,  
Kailsa Road, Amroha,  
J. P. Nagar, U.P.

Shri Nand Kishore Gupta,  
Ward No. 12, Jawahar Nagar,  
Nagar Panchayat, Seorahi,  
Opp. Punjab National Bank, (Main Road).  
Tamkuhi Road, P.O. Seorahi, Tahsil Tamkuhi Raj,  
Distt. Kushinagar (U.P.) 274406

UTTRAKHAND

Shri Sunil Gupta,  
3, Doon Vihar,  
Dehradun (Uttarakhand).

2. The Council Shall continue till its Chairman holds the office of Steel Minister. The initial tenure of the SCC will be two years from the date of this Notification unless specifically

extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

SYEDAIN ABBASI  
Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th December 2012

RESOLUTION

No. ERB-I/2009/23/21—Ministry of Railways (Railway Board) have decided to dissolve with immediate effect the Passenger Amenities Committee constituted under Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution of even number dated 26.09.2011.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. JAT, Secy.  
(Railway Board)

RESOLUTION

No. ERB-I/2012/23/2—The Ministry of Railways (Railway Board) have decided to dissolve with immediate effect the Passenger Services Committee constituted under Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution of even number dated 12.01.2012.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. JAT, Secy.  
(Railway Board)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012